



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 23—मार्च 1, 2013 (फाल्गुन 4, 1934)

No. 8]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 23—MARCH 1, 2013 (PHALGUNA 4, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2013

थल सेना विभाग

सं. 65, दिनांक 28 जनवरी 2013—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें
जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष
निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेवा

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

कै के पद पर (परख पर)

कै संदीप सिंह (डीएस-12397के), 27 अक्टूबर 2010

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2007 से दी जाती
है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता
भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

सतीश आर अय्यर

ब्रिगे

डीजीडीएस (पी)

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

कै पियूष पाठक (डीएस-12377डब्ल्यू), 28 अगस्त 2010

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28 फरवरी 2007 से दी जाती
है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता
भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

सं. 66, दिनांक 28 जनवरी 2013—राष्ट्रपति निम्नलिखित एमएनएस
अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से स्थायी
कमीशन दिया जाता है :--

एन एस से एन आर

मेजर सारथा एस (एनएस-21137ए), 23 नवम्बर 2002, 16 अगस्त 2012

मेजर आर रामालक्ष्मी (एनएस-21165एम), 02 दिसम्बर 2002, 16 अगस्त 2012

कैप्टन रिंकी सचन (एनएस-21690एच), 23 अगस्त 2007, 16 अगस्त 2012

कैप्टन संगीता के एम (एनएस-21691एल), 23 अगस्त 2007, 16 अगस्त 2012

एच जे भुल्लर
मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक (एमएनएस)

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

अल्प अवधि कमीशन

सं. 67, दिनांक 29 जनवरी 2013--राष्ट्रपति निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से विस्तार की अवधि प्रदान करते हैं :--

मेजर स्मिता रामाचन्द्रन (एनएस-21139एल), 22 नवम्बर 2012 तक, 22 नवम्बर 2016 तक

मेजर एस सेल्वारानी (एनएस-21150के), 22 नवम्बर 2012 तक, 22 नवम्बर 2016 तक

मेजर पी रंजीता देवी (एनएस-21155एच), 22 नवम्बर 2012 तक, 22 नवम्बर 2016 तक

मेजर अनुपमा चौधरी (एनएस-21160एन), 22 नवम्बर 2012 तक, 22 नवम्बर 2016 तक

मेजर जे जयाभारती (एनएस-21162वाई), 22 नवम्बर 2012 तक, 22 नवम्बर 2016 तक

कै रेहाना दास (एनएस-21677वाई), 22 अगस्त 2017 तक

कै सुषमा कुमारी (एनएस-21678एफ), 22 अगस्त 2017 तक

कै पूजा गौतम (एनएस-21681एफ), 22 अगस्त 2017 तक

कै अस्वथी चन्द्रन (एनएस-21682के), 22 अगस्त 2017 तक

कै नमनीत कौर (एनएस-21687एच), 22 अगस्त 2017 तक

कै स्वीटी कुमारी (एनएस-21692एन), 22 अगस्त 2017 तक

कै अमेधा सी वी (एनएस-21697एम), 22 अगस्त 2017 तक

एच जे भुल्लर

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक (एमएनएस)

थल सेना शाखा

सं. 68, दिनांक 29 जनवरी 2013--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

मेजर जनरल (व समकक्ष) से लेफ्टिनेंट जनरल (व समकक्ष) के पद पर

एसएस पनवर, एसएम (एमआर-04125पी), 01 जुलाई 2012 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2012 से दी जाती है

यश पांडे

मेजर जनरल

अपर महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 69, दिनांक 30 जनवरी 2013--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

ब्रिगे से मेजर जनरल

मेजर जनरल सुनीता कपूर (एनआर-15948पी), 01 सितम्बर 2012

कर्नल से ब्रिगे

ब्रिगे देविका गुरुंग (एनआर-16865डब्ल्यू), 19 सितम्बर 2012

ब्रिगे आई डी राय (एनआर-16482के), 12 सितम्बर 2012

लेफ्टि कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

कर्नल करुणा भल्ला (एनआर-17185एच), 25 सितम्बर 2012

कर्नल वसन्ता कुमारी जी (एनआर-16945एन), 15 सितम्बर 2012

लेफ्टि कर्नल (टी एस) से लेफ्टि कर्नल (सेलेक्ट)

ले कर्नल ए कमला (एनआर-18196एफ), 03 सितम्बर 2012

ले कर्नल श्रेसियम्मा पी वी (एनआर-18176एन), 22 सितम्बर 2011
 ले कर्नल सुनीता कपूर (एनआर-18007एम), 17 अगस्त 2011
 ले कर्नल शोभना सी डी (एनआर-18046एल), 17 अगस्त 2011
 ले कर्नल परिमला कुमारी के (एनआर-18257एन), 22 दिसम्बर 2011

ले कर्नल लता नायडू (एनआर-18632एन), 03 सितम्बर 2012
 ले कर्नल टी सिरयक (एनआर-17965एन), 01 अगस्त 2011

मेजर से ले कर्नल (टी एस)

ले कर्नल सर्वजीत कौर (एनआर-20524एच), 20 जून 2012
 ले कर्नल बिनम द्विवेदी (एनआर-20526एन), 20 जून 2012
 ले कर्नल डेलमा मैथ्यू (एनआर-20527डब्ल्यू), 20 जून 2012
 ले कर्नल रेखा सी (एनआर-20528वाई), 20 जून 2012
 ले कर्नल सरिता टी एस (एनआर-20530डब्ल्यू), 20 जून 2012
 ले कर्नल बिन्सी बोस टी (एनआर-20531वाई), 20 जून 2012
 ले कर्नल शालिनी सिंह (एनआर-20536एक्स), 20 जून 2012
 ले कर्नल बेबी सुमंगली एन (एनआर-20538एच), 20 जून 2012
 ले कर्नल जॉली एलेक्जेंडर (एनआर-20539एल), 20 जून 2012
 ले कर्नल स्मिता टी (एनआर-20541एच), 20 जून 2012
 ले कर्नल अण्जी के एल (एनआर-20542एल), 20 जून 2012
 ले कर्नल दीप्ता एम नायर (एनआर-20543एन), 20 जून 2012
 ले कर्नल के रोसी रोड्रिग्स (एनआर-20544डब्ल्यू), 20 जून 2012
 ले कर्नल रैचल पी मथाई (एनआर-20545वाई), 20 जून 2012
 ले कर्नल मंजुलक्ष्मी (एनआर-20547के), 20 जून 2012
 ले कर्नल पी शैला (एनआर-20549पी), 20 जून 2012
 ले कर्नल मृदुला मस्सी (एनआर-20551एम), 20 जून 2012
 ले कर्नल जीना एन जी (एनआर-20553एक्स), 20 जून 2012
 ले कर्नल जोसी वी (एनआर-20556एल), 20 जून 2012
 ले कर्नल संगीता सिन्हा (एनआर-20557एन), 20 जून 2012
 ले कर्नल अनुराधा रावत (एनआर-20559वाई), 20 जून 2012
 ले कर्नल नीलकमल जोशी (एनआर-20562वाई), 20 जून 2012

लेफ्टि से कैप्टन

कै प्रेरणा सिंह (एनआर-22377के), 07 अगस्त 2012
 कै चन्दना सी (एनआर-22378एम), 07 अगस्त 2012

कै गीता देवी (एनआर-22379पी), 07 अगस्त 2012
 कै गीतांजलि सहगल (एनआर-22380के), 07 अगस्त 2012
 कै भावना गौर (एनआर-22381एम), 07 अगस्त 2012
 कै सुनीता देवी (एनआर-22382पी), 07 अगस्त 2012
 कै लोरिना डोरोथी प्रकाश (एनआर-22383एक्स), 07 अगस्त 2012
 कै दीपिका शैरोन (एनआर-22384ए), 07 अगस्त 2012
 कै नीलम चन्द (एनआर-22385एच), 07 अगस्त 2012
 कै प्रियंका चौबे (एनआर-22386एल), 07 अगस्त 2012
 कै क्रिस्टीना (एनआर-22387एन), 07 अगस्त 2012
 कै सान्या ठाकुर (एनआर-22388डब्ल्यू), 07 अगस्त 2012
 कै अर्चना शर्मा (एनआर-22389वाई), 07 अगस्त 2012
 कै सुमीत मैथ्यू (एनआर-22390एन), 07 अगस्त 2012
 कै सुमन कुमारी (एनआर-22391डब्ल्यू), 07 अगस्त 2012
 कै कंचन बाला कुण्डल (एनआर-22392वाई), 07 अगस्त 2012
 कै प्रतिभा रानी (एनआर-22393वाई), 07 अगस्त 2012
 कै नेहा कटोच (एनआर-22394के), 07 अगस्त 2012
 कै रजनी आर (एनआर-22395एम), 07 अगस्त 2012
 कै सिजो के थॉमस (एनआर-22396पी), 07 अगस्त 2012
 कै सीता देवी (एनआर-22397एक्स), 07 अगस्त 2012
 कै जिजो वी नायर (एनआर-22398ए), 07 अगस्त 2012
 कै शीतल (एनआर-22399एच), 07 अगस्त 2012
 कै सोनिका क्षेत्री (एनआर-22400एम), 07 अगस्त 2012
 कै उषा पाण्डे (एनआर-22401पी), 07 अगस्त 2012
 कै दीपा बिष्ट (एनआर-22402एक्स), 07 अगस्त 2012
 कै सविता पाण्डे (एनआर-22403ए), 07 अगस्त 2012
 कै सुमन वर्मा (एनआर-22404एच), 07 अगस्त 2012
 कै रिनी राज (एनआर-22405एल), 07 अगस्त 2012
 कै अमिता मैथ्यू के (एनएस-22376एफ), 28 जून 2012
 कै बज्जल रजनी (एनएस-22069के), 23 नवम्बर 2010
 कै क्रिस्टीना इलीजर (एनएस-21971वाई), 22 अक्टूबर 2010
 कै कविता जी (एनएस-21973के), 22 अक्टूबर 2010
 कै गायत्री देवी (एनएस-21998डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010

कै वनिता सी (एनएस-22010के), 22 अक्टूबर 2012
 कै अनुभूति कपूर (एनएस-22368एच), 17 मई 2012
 कै शाइनी पी पी (एनएस-22369एल), 17 मई 2012
 कै के विमला (एनएस-22370ए), 17 मई 2012
 कै पिकी (एनएस-22371एच), 17 मई 2012
 कै निम्ननपल्ले संपूर्णा (एनएस-22372एल), 17 मई 2012
 कै तम्फामनी देवी निंगथोजम (एनएस-22373एन), 17 मई 2012
 कै सुजामोल एन पी (एनएस-22374डब्ल्यू), 17 मई 2012
 कै शिरीन जोसफ (एनएस-22375वाई), 17 मई 2012

एच जे भुल्लर
 मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक, एमएनएस

थल सेना शाखा

सं. 70, दिनांक 30 जनवरी 2013--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

आर कपूर (एमआर-06163के), 01 जुलाई 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई 2011 से दी जाती है

जे रॉय (एमआर-06941के), 23 जून 2012, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03 मई 2011 से दी जाती है

लेफ्टि कर्नल के पद पर

एम के मिश्रा (एमआर-07474के), एएमसी, 13 जुलाई 2012

विक्रम उमल (एमआर-07486वाई), एएमसी, 13 जुलाई 2012

स्मिता मौदगिल (एमआर-07463एक्स), एएमसी, 13 जुलाई 2012

पी ए रावि कुमार (एमआर-08262एल), एएमसी, 23 जनवरी 2012

बिराज गोगोई (एमआर-09219डब्ल्यू), एएमसी, 17 फरवरी 2012

शिव कुमार आर एन (एमआर-08091के), एएमसी, 28 अप्रैल 2012

पी वी भरत (एमआर-07487एफ), एएमसी, 13 जुलाई 2012

नरुदुत्संगा सैलो (एमआर-08414एफ), एएमसी, 21 जुलाई 2012

गिरीश ए (एमआर-08235एफ), एएमसी, 21 जुलाई 2012

सुमित अरोरा (एमआर-07284एक्स), एएमसी, 05 फरवरी 2012

सोनाली विनय कुमार (एमआर-07472वाई), एएमसी, 13 जुलाई 2012

शशि कुमार (एमआर-07480एक्स), एएमसी, 13 जुलाई 2012

ए एस ब्रा (एमआर-07482एच), एएमसी, 13 जुलाई 2012

दीजाज नौहार (एमआर-07473एफ), एएमसी, 13 जुलाई 2012

सिम्ल वरमा (एमआर-07402ए), एएमसी, 15 फरवरी 2012

सौरभ सिंह (एमआर-07484एन), एएमसी, 13 जुलाई 2012

एस पी एस शेरगिल (एमआर-07479एच), एएमसी, 13 जुलाई 2012

आशुतोष मिश्रा (एमआर-08614एक्स), एएमसी, 21 जुलाई 2012

प्रवीन मेढ़ी (एमआर-08501पी), एएमसी, 21 जुलाई 2012

विंग कमांडर के पद पर

एम बी सुजा (एमआर-08283एफ) (एफ-26057), एएमसी, 05 जनवरी 2012

ए के गर्ग (एमआर-07464ए) (एफ-26040), एएमसी, 13 जुलाई 2012

दीपंजन डे (एमआर-07481ए) (एफ-26046), एएमसी, 13 जुलाई 2012

प्रज्ञा शर्मा (एमआर-07469डब्ल्यू) (एफ-26043), एएमसी, 13 जुलाई 2012

विक्रम त्रेहन (एमआर-07466एल) (एफ-26042), एएमसी, 13 जुलाई 2012

कुमार अभिषेका (एमआर-07465एच) (एफ-26040), एएमसी, 13 जुलाई 2012

मनोज कुमार गोस्वामी (एमआर-08613पी) (एफ-26040), एएमसी, 21 जुलाई 2012

मेजर के पद पर

विशाल शर्मा (एमआर-09243एम), एएमसी, 13 मई 2012

श्यामजी तिवारी (एमआर-085999एन), एएमसी, 28 जून 2012

मनीष मिश्रा (एमआर-09305एफ), एएमसी, 25 अप्रैल 2012

निशांत भारद्वाज (एमआर-08601ए), एएमसी, 30 जुलाई 2012

बिपिन बिनोद (एमआर-09236डब्ल्यू), एएमसी, 12 अगस्त 2012

लोवराज गोयल (एमआर-09223वाई), एएमसी, 12 अगस्त 2012

रितेश शर्मा (एमआर-09286एफ), एएमसी, 12 अगस्त 2012

दिनेश यादव (एमआर-09311पी), एएमसी, 12 अगस्त 2012

वैभव श्रीवास्तवा (एमआर-09334डब्ल्यू), एएमसी, 30 जुलाई 2012
पटेल कश्यपकुमार चंद्रकांत भाई (एमआर-09265एल), एएमसी,
12 अगस्त 2012

मनु एन (एमआर-09259एक्स), एएमसी, 12 अगस्त 2012
जयदीप लोचम (एमआर-09320डब्ल्यू), एएमसी, 12 अगस्त 2012

राजवीर सिंह
बिग्रे
उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

थल सेना विभाग

सं. 71, दिनांक 31 जनवरी 2013--थल सेना अनुदेश 15/79 व
उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति
करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से मेजर के पद पर

कैप्टन पंकज जुनेजा (डीएस-12376एन), 25 फरवरी 2012
कैप्टन पीयूष पाठक (डीएस-12377डब्ल्यू), 28 फरवरी 2012
कैप्टन पंकज कौशिक (डीएस-12387ए), 05 मार्च 2012
कैप्टन रन्जीत पनवर (डीएस-12302वाई), 30 मार्च 2012
कैप्टन (सुश्री) अंकुरिता शर्मा (डीएस-12305एम), 01 अप्रैल 2012

सतीश आर अय्यर
बिग्रे

डीजीडीएस-1

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 72, दिनांक 31 जनवरी 2013--राष्ट्रपति, निम्नलिखित एनसीसी
पूर्णकालिक महिला अधिकारी की पदोन्नतियां करते हैं। उनकी पदोन्नति
की तिथि व रैंक सम्बन्धी विरिष्ठता उनके नाम के सामने दी गई हैं :--

एनसीसी पूर्णकालिक महिला अधिकारी

(स्थायी कमीशन प्राप्त-लेफ्टि से कैप्टन)

एनसीसी/जीडी/पीसी-12544 लेफ्टि संगीता पी सुरेन्द्र, 12 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12549 लेफ्टि महादासु सुभ्रा, 14 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12551 लेफ्टि रिद्धिमा सिंह पोखर, 16 जून 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12552 लेफ्टि येशु मुदगल, 12 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12553 लेफ्टि स्वाती पाण्डे, 09 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12554 लेफ्टि ऋचा शर्मा, 22 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12555 लेफ्टि प्रियंका चौहान, 13 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12556 लेफ्टि अनिता सेठी, 15 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12557 लेफ्टि छाया कोरवाल, 15 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12558 लेफ्टि रिजू रावत, 09 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12559 लेफ्टि आदिति सिंह, 27 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12561 लेफ्टि अल्पना, 19 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12563 लेफ्टि आकांक्षा पाण्डे, 20 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12564 लेफ्टि छवि सूद, 08 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12565 लेफ्टि प्रतिभा तिवारी, 14 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12567 लेफ्टि एन नयानघाऊ चिंग, 18 जुलाई 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12568 लेफ्टि एकता जायसवाल, 13 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12569 लेफ्टि श्वेता सिंह, 03 जुलाई 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12571 लेफ्टि इन्दू तिवारी, 15 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12572 लेफ्टि अरुंधति जे पटेल, 13 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12575 लेफ्टि मुन्नी पंकज, 20 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12577 लेफ्टि अविनाशी पटवाल, 15 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12578 लेफ्टि निष्ठा शर्मा, 23 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12580 लेफ्टि मंगैअरकारसी धिरुमेनी, 17 जून 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12581 लेफ्टि ज्योति, 19 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12583 लेफ्टि शशि मेहता, 13 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12584 लेफ्टि अमनप्रीत कौर, 14 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12585 लेफ्टि मीनू तोमर, 18 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12586 लेफ्टि शहनाज खान, 12 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12587 लेफ्टि ममता शंकर, 03 जुलाई 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12589 लेफ्टि अलोदिया ग्रेसिया वर्जरी, 19 जून 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12592 लेफ्टि रेवती प्रभाकरण, 16 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12593 लेफ्टि प्रतिमा नागर, 08 जून 2012
एनसीसी/जीडी/पीसी-12594 लेफ्टि कनक लता चौरे, 15 जून 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12598 लेफ्टि प्रमिला सिंह, 23 जून 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12599 लेफ्टि शशि सिंह, 14 जून 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12600 लेफ्टि वीजी आई वी, 19 जून 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12603 लेफ्टि परवीन कुमारी, 25 जून 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12604 लेफ्टि मनजीत कौर, 23 जून 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12605 लेफ्टि गायत्री के नायर, 21 जून 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12606 लेफ्टि गुगामलाथी ए, 09 जून 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12608 लेफ्टि प्रीति, 16 जून 2012

एनसीसी/जीडी/पीसी-12609 लेफ्टि पूनम इक्का, 20 जून 2012

एभ के सेठी

कर्नल

निदेशक (एमएस)

थल सेना शाखा

इलैक्ट्रॉनिक और यांत्रिक अभियंता कोर

सं. 73, दिनांक 01 फरवरी 2013--राष्ट्रपति महोदय, श्री एस सी सिंह को दिनांक 29 अप्रैल 2006 (पूर्वाह्न) से ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय में सहायक अधिशासी अभियंता समूह क के पद पर प्रोन्नत करते हैं :-

एस के तंवर

अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 74, दिनांक 01 फरवरी 2013--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार विक्रम सिंह (जेसी-420102एल), 21 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

सूबेदार सूरज सिंह (जेसी-419896पी), 19 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-419734के), 11 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बजरंग लाल ढाका (जेसी-421268वाई), 04 अक्टूबर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सतीश सिंह (जेसी-421679एक्स), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार बाबू लाल जांगीर (जेसी-421288एम), 04 अक्टूबर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अत्तार सिंह (जेसी-421536एक्स), 01 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कालू राम थोरी (जेसी-421210एफ), 02 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह राणा (जेसी-421282एल), 05 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गिरीश कुमार (जेसी-421321वाई), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार ए बोस्को (जेसी-421371के), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार कृष्णा मोहन सिंह (जेसी-421394एल), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-421267डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार ए पीटर (जेसी-421404के), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार अनिक प्रसाद यादव (जेसी-421439ए), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार लखवीर सिंह (जेसी-421531वाई), 01 दिसम्बर 2012

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार परवीण कुमार (जेसी-419861वाई), 05 अक्टूबर 2012 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

सूबेदार हेम सिंह (जेसी-419923एन), 31 अक्टूबर 2012

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विजु पी (जेसी-421516के), 17 अक्टूबर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रामेश्वर लाल गुजर (जेसी-421115पी), 13 अक्टूबर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शिवे लोचन सिंह (जेसी-421230पी), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार एल्डो वाई (जेसी-421334डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार धर्मेन्द्रा कुमार (जेसी-421364एन), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार संजय प्रल्हाद खटवकर (जेसी-421379डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012 *

नायब सूबेदार कथिरावन बी (जेसी-421438एक्स), 13 अक्टूबर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शिवनायेक सिंह (जेसी-421620एक्स), 13 अक्टूबर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ध्रुव सिंह (जेसी-421623एल), 05 अक्टूबर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम मूर्ती (जेसी-421678पी), 18 अक्टूबर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार उत्तम चंद (जेसी-421779एच), 03 अक्टूबर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार (जेसी-421336एफ), 05 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-421266एन), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार सदानन्द प्रसाद (जेसी-421323के), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार हरि कुमार के आर (जेसी-421390पी), 08 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रमोद चन्द्र बैश्य (जेसी-421396डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार जितेन कुमार घोष (जेसी-421381एन), 06 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लखबीर सिंह (जेसी-421407एक्स), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार वी कोंगप्पन (जेसी-421417एफ), 03 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गजेश कुमार (जेसी-421418के), 06 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कुन्दन सिंह (जेसी-421430एल), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार उमा नाथ चौधरी (जेसी-421456ए), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार शेख इनुस इब्राहिम (जेसी-421799डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार कैलाश मौर्या (जेसी-421487ए), 08 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-421687डब्ल्यू), 05 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-421766पी), 10 नवम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शिओ करन (जेसी-421805वाई), 01 नवम्बर 2012

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) कृष्ण सिंह (जेसी-419803पी), 01 नवम्बर 2012

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) मुजावर सलीम महम्मद (जेसी-421049एक्स), 18 जून 2012 *

*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) हरे कृष्ण सिन्हा (जेसी-421196ए),
01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार (लिपिक) प्रताप सिंह मुन्ड (जेसी-421197एच),
01 नवम्बर 2012

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एसकेटी) सूर्या पाल यादव (जेसी-421900एल),
01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमरेश त्रिपाठी (सं. 14916707एन अब जेसी-422159वाई), 08 जुलाई 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार सुनिल सिवानी (सं. 14916733पी अब जेसी-422160एन),
22 जून 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार राम केवल (सं. 14918466एक्स अब जेसी-422182एम),
27 सितम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार सुख देव सिंह (सं. 14916089एन अब जेसी-422183पी),
30 सितम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार राना (सं. 14914830एन अब जेसी-422184एक्स), 30 सितम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार ए देवेन्द्रन (सं. 14918610एफ अब जेसी-422185ए),
04 अक्टूबर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार चौधरी प्रविन कुमार देवजी भाई (सं. 14916121एक्स अब जेसी-422186एच), 09 अक्टूबर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार राम सागर प्रसाद (सं. 14919665एक्स अब जेसी-422187एल), 03 अक्टूबर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार भूटा राम (सं. 2990836वाई अब जेसी-422188एन),
16 अक्टूबर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार लाल चंद्रा ओझा (सं. 14917901पी अब जेसी-422189डब्ल्यू), 12 अक्टूबर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार परमजीत (सं. 14922447के अब जेसी-422190एल),
16 अक्टूबर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार नवीन कुमार माली (सं. 14918163एच अब जेसी-422191एन), 16 अक्टूबर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार सोम नाथ सिंह (सं. 14918233डब्ल्यू अब जेसी-422192डब्ल्यू), 16 अक्टूबर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार राजिन्दर सिंह राना (सं. 14919995डब्ल्यू अब जेसी-422193वाई), 19 अक्टूबर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार पदम सिंह (सं. 14917879पी अब जेसी-422194एफ),
01 नवम्बर 2012

सुभद्रत करमाकर
अवर सचिव

सं. 75, दिनांक 04 फरवरी 2013--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेवा

सूबेदार मेजर गोलां मुर्शद (जेसी-826156डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*

सूबेदार मेजर केहर चंद सैनी (जेसी-826159के), 02 मई 2012/
01 मई 2012*

सूबेदार के आर प्रधान (जेसी-826212के), 02 जनवरी 2012/
01 जनवरी 2012*

सूबेदार के बी राना (जेसी-826213एम), 09 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*

सूबेदार बी बी पांडे (जेसी-826214पी), 01 अप्रैल 2012

सूबेदार के बी आले (जेसी-826215एक्स), 01 अप्रैल 2012

सूबेदार गोपाल थापा (जेसी-826216ए), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*

सूबेदार राकेश सिंह (जेसी-826217एच), 01 अप्रैल 2012

सूबेदार जोगिंदर लाल (जेसी-826218एल), 03 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*

सूबेदार उटेकर वि आर (जेसी-826219एन), 01 मई 2012

सूबेदार दिलिप कुमार आचार्या (जेसी-826220एच), 01 मई 2012

सूबेदार नरेश सिंह (जेसी-826210वाई), 02 जुलाई 2012/01 अक्तूबर 2011*

बि एच एम विनोद कुमार (सं. 13755854एल अब जेसी-826260के), 26 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011*

बि एच एम दीप सिंह (सं. 4183231ए अब जेसी-826261एम), 07 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

बि एच एम लखविन्दर सिंह (सं. 3391795एल अब जेसी-826262पी), 01 अप्रैल 2012

बि एच एम रावासाब जिबागोल (सं. 2784139वाई अब जेसी-826263एक्स), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*

बि एच एम गणेश लिम्बु (सं. 9418838एम अब जेसी-826264ए), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*

बि एच एम जगदिश कुमार चौधरी (सं. 13752222डब्ल्यू अब जेसी-826265एच), 03 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*

बि एच एम बि एस चिलगर (सं. 1580995वाई अब जेसी-826266एल), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*

बि एच एम एन रमनामूर्ति (सं. 1089579एन अब जेसी-826267एन), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*

बि एच एम देवेंद्रा सिंह (सं. 4561571डब्ल्यू अब जेसी-826268डब्ल्यू), 01 मई 2012

बि एच एम वी मायाक्रिशनन (सं. 14891440एक्स अब जेसी-826269वाई), 02 मई 2012/01 मई 2012*

बि एच एम बिक्रम सिंह (सं. 13573656एच अब जेसी-826270एन), 01 जून 2012

बि एच एम अनिल कुमार (सं. 4069955एक्स अब जेसी-826271डब्ल्यू), 01 जुलाई 2012

बि एच एम बाबुराव देसाई (सं. 2787454ए अब जेसी-826272वाई), 01 जुलाई 2012

*(वरिष्ठता दिनांक)

प्रेम प्रकाश

अवर सचिव

थल सेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 76, दिनांक 04 फरवरी 2013--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कॉम्प्यूटर के रैंक में

हेमंत कुमार रावत (सं. 14636220एच अब जेसी-767604एक्स), 01 नवम्बर 2012

पद्मनाभ छतोड़ (सं. 14636277एक्स अब जेसी-767611एन), 01 नवम्बर 2012

मुकेश कुमार (सं. 14636435एफ अब जेसी-767617पी), 01 नवम्बर 2012

देवासिस दे (सं. 14636342एम अब जेसी-767614एफ), 07 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

सिंतु कुमार दास (सं. 14636243के अब जेसी-767605ए), 01 नवम्बर 2012

अजय कुमार रौत्रे (सं. 14636270एन अब जेसी-767610एल), 01 नवम्बर 2012

जाकब जे (सं. 14635156के अब जेसी-767597एम), 01 नवम्बर 2012

जरमन कुमार (सं. 14635262एच अब जेसी-767598पी), 01 नवम्बर 2012

लक्ष्मी कांत जाना (सं. 14634472डब्ल्यू अब जेसी-767591एल), 01 नवम्बर 2012

टी रमेश (सं. 14635284एफ अब जेसी-767599एक्स), 01 नवम्बर 2012

कुलदीप सिंह (सं. 14632980एन अब जेसी-767590एच), 01 नवम्बर 2012

गौर प्रसाद गोस्वामी (सं. 14636261एम अब जेसी-767609डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012

सिया राम सिंह कुशवाह (सं. 14634784एम अब जेसी-767595एफ), 01 नवम्बर 2012

मनोज मण्डल (सं. 14635589एफ अब जेसी-767602एम), 01 नवम्बर 2012

प्रयाग दत्त पाण्डेय (सं. 14634626एक्स अब जेसी-767593डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012

संजय कुमार झा (सं. 14636338के अब जेसी-767613वाई),
02 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

हरधान सिंहा (सं. 14636253एन अब जेसी-767607एल),
01 नवम्बर 2012

जुपल्ली वी कोटेश्वरा राव (सं. 14636254डब्ल्यू अब जेसी-767608एन), 01 नवम्बर 2012

जयप्रकाश सी के (सं. 14634806ए अब जेसी-767616एम),
01 नवम्बर 2012

मन्दा वी रमना रेड्डी (सं. 14609208एक्स अब जेसी-767501वाई),
17 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012*

रजेश कुमार प्रजापती (सं. 14635110एफ अब जेसी-767596के),
09 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

अनिल कुमार (सं. 14632971एम अब जेसी-767589एन),
09 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

मनोज बिस्वकर्मा (सं. 14636249एल अब जेसी-767606एच),
12 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

सज्जन कुमार (सं. 14635411एल अब जेसी-767601के),
06 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

मुकेश कुमार यादव (सं. 14636198एच अब जेसी-767603पी),
07 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

पठान शाकिर हमीद (सं. 14634576एक्स अब जेसी-767594वाई),
01 नवम्बर 2012

शिव कुमार ए आर (सं. 14635359एन अब जेसी-767600एफ),
08 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

जी कन्नै राम (सं. 14634475के अब जेसी-767592एन), 10 नवम्बर
2012/01 नवम्बर 2012*

पूल नारायणा (सं. 14636319वाई अब जेसी-767612डब्ल्यू),
09 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

हवलदार से नायब सूबेदार अर्मायेन्ट (एफडी) के रैंक में

संजीव कुमार (सं. 14602994वाई अब जेसी-767631एफ),
03 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

शिव शंकर सिंह (सं. 14602947एफ अब जेसी-767510ए),
12 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

सुबोध कुमार सिंह (सं. 14602969ए अब जेसी-767511एच),
10 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

हवलदार से नायब सूबेदार अटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

धर्मेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14599948डब्ल्यू अब जेसी-767513एन),
02 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

हवलदार से नायब सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में

संतोश कुमार पाण्डेय (सं. 14613620एच अब जेसी-767509एल),
03 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

दिनेश (सं. 14613618एल अब जेसी-767508एच), 06 नवम्बर
2012/01 नवम्बर 2012*

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

शोभ नाथ पाण्डेय (सं. 14609812एच अब जेसी-767505पी),
01 नवम्बर 2012

संतोश कुमार सिंह (सं. 14609224पी अब जेसी-767502एफ),
01 नवम्बर 2012

लाल जी (सं. 14610646एम अब जेसी-767507ए), 01 नवम्बर
2012

राकेश कुमार शर्मा (सं. 14610614के अब जेसी-767506एक्स),
15 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*

हवलदार से नायब सूबेदार सपोर्ट स्टाफ (ईआर) के रैंक में

धामोधरन जी (सं. 14655135पी अब जेसी-767457ए), 13 अक्टूबर
2012/01 अक्टूबर 2012*

हवलदार से नायब सूबेदार अर्मायेन्ट टेक (ए एफ वी/ए डी) के रैंक में

गाजुला नागभूषनम (सं. 14609976वाई अब जेसी-767391पी),
30 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012*

श्याम सुंदर सिंह (सं. 14610443एच अब जेसी-767392एक्स),
20 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012*

हवलदार से नायब सूबेदार मशिनिस्ट के रैंक में

जाधव तानाजी तुकाराम (सं. 14612557एम अब जेसी-767285डब्ल्यू), 13 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012*

रामचन्द्र स्वेन (सं. 14613946वाई अब जेसी-767286वाई),
15 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012*

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन मेटलर्जी के रैंक में

अंजय कुमार (सं. 14619320एक्स अब जेसी-767289एम),
29 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012*

शिवा अवस्ती (सं. 14644398एन अब जेसी-767287एफ),
02 नवम्बर 2012/01 अक्टूबर 2012*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक रडार के रैंक में

नवीन यादव (सं. 14640508ए अब जेसी-767393ए), 02 नवम्बर
2012/01 नवम्बर 2012*

नायब सूबेदार से सूबेदार टेक (एस ए) के रैंक में

सुरेश कुमार (जेसी-764555पी), 24 अक्टूबर 2012/01 जुलाई
2012*

प्रमोद कुमार सिंह (जेसी-765454एन), 02 नवम्बर 2012/
01 अगस्त 2012*

वालुंज अशोक नामदेव (जेसी-764976एक्स), 01 नवम्बर 2012/
01 जुलाई 2012*

नायब सूबेदार से सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में
 प्रमोद कुमारी तिवारी (जेसी-764621एम), 01 नवम्बर 2012
 राज पाल हंस (जेसी-764338वाई), 25 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012*
 अजित सिंह (जेसी-764336एन), 07 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012*
 रमेश कुमार (जेसी-764002वाई), 01 अक्टूबर 2012/01 अगस्त 2012*
 बालेश्वर सिंह (जेसी-764988एम), 01 नवम्बर 2012
 साहब यादवा (जेसी-765190एक्स), 01 नवम्बर 2012
 रमेश चन्दर टेलर (जेसी-765195डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012
 मोहन यादव (जेसी-765275एन), 01 नवम्बर 2012
 एन मानिक्यम (जेसी-764985वाई), 02 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*
 आज़ाद अहमद (जेसी-765056एम), 01 नवम्बर 2012
 महकर सिंह (जेसी-764986एफ), 01 नवम्बर 2012
 वी मुथु गोपाल (जेसी-764952एन), 01 नवम्बर 2012
 प्रसान्त बर्दोलोइ (जेसी-762950के), 01 अक्टूबर 2012
 जनमेद सिंह (जेसी-765058एक्स), 01 नवम्बर 2012
 नायब सूबेदार से सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में
 ओम प्रकाश पाण्डेय (जेसी-763750ए), 01 नवम्बर 2012
 सतीश चन्द्र सैनी (जेसी-763624एन), 01 नवम्बर 2012
 सावन्त विलास शान्ताराम (जेसी-763748एच), 01 नवम्बर 2012
 घनश्याम डांगी (जेसी-763625डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012
 सुरेश बाबू (जेसी-763626वाई), 01 नवम्बर 2012
 यादव राकेश बाबू विध्याराम (जेसी-763627एफ), 01 नवम्बर 2012
 विजय सिंह (जेसी-763622एच), 01 नवम्बर 2012
 मिश्रा दिनेश कुमार रामवलम्ब (जेसी-763747ए), 01 नवम्बर 2012
 चन्दर भान (जेसी-763630एफ), 01 नवम्बर 2012
 बिरोलाल सिंघा (जेसी-763745पी), 01 नवम्बर 2012
 अशोक कुमार (जेसी-763631के), 01 नवम्बर 2012
 वीर बहादुर सिंह (जेसी-763633पी), 01 नवम्बर 2012
 हरकरन सिंह (जेसी-763623एल), 01 नवम्बर 2012
 बाबू कुट्टन आर (जेसी-763732एक्स), 01 नवम्बर 2012
 भिकम चन्द (जेसी-763166एच), 01 अक्टूबर 2012
 दर्शन लाल (जेसी-763617एक्स), 01 अक्टूबर 2012

प्रमोद कुमार पसायत (जेसी-763608डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012
 रामेश्वर लाल कच्चावाह (जेसी-763255एफ), 12 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012*
 नायब सूबेदार से सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में
 सतेन्द्र नाथ पाण्डेय (जेसी-766289ए), 01 नवम्बर 2012/01 जुलाई 2012*
 अमी लाल (जेसी-766436एक्स), 01 नवम्बर 2012/01 जुलाई 2012*
 सुरेन्द्र सिंह (जेसी-765634डब्ल्यू), 17 अक्टूबर 2012/01 अप्रैल 2012*
 हिरदय नारायण त्रिवेदी (जेसी-766442एल), 01 नवम्बर 2012/01 जुलाई 2012*
 इन्द्र सिंह (जेसी-766439एल), 01 नवम्बर 2012/01 जुलाई 2012*
 खसत्रिय विनोद सिंह एस बी (जेसी-766441एच), 01 नवम्बर 2012/01 जुलाई 2012*
 बंशी लाल कतारे (जेसी-766287पी), 01 नवम्बर 2012/01 जुलाई 2012*
 हवलदार से नायब सूबेदार अटो टेक (इंजीनियर इक्यूपमेंट) के रैंक में
 हेमेन्द्र कुमार (सं. 14627157एक्स अब जेसी-767146एम), 07 जून 2012/01 जून 2012*
 हवलदार से नायब सूबेदार टेक अटो इलेक्ट के रैंक में
 राम अवतार यादव (सं. 14602861एच अब जेसी-767117एक्स), 11 जून 2012/01 जून 2012*
 हवलदार से नायब सूबेदार मशिनिस्ट के रैंक में
 उमेश चन्द्र (सं. 14603012एन अब जेसी-767147पी), 15 जून 2012/01 जून 2012*
 धुले हरी भाउ देवराव (सं. 14607621पी अब जेसी-767084एक्स), 01 जून 2012
 हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में
 देवकी नन्दन शर्मा (सं. 14600576एल अब जेसी-767081के), 05 जून 2012/01 जून 2012*
 हवलदार से नायब सूबेदार सपोर्ट स्टाफ (अपोलिस्ट) के रैंक में
 नन्द लाल राठौर (सं. 14598879वाई अब जेसी-767089डब्ल्यू), 13 जून 2012/01 जून 2012*
 हवलदार से नायब सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में
 अमर सिंह (सं. 14603688डब्ल्यू अब जेसी-767576डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012

देशराज यादव (सं. 14600664एफ अब जेसी-767489एच),
23 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

गुर्दियाल सिंह (सं. 14602357एच अब जेसी-767498के),
01 अक्टूबर 2012

इक्बाल सिंह (सं. 14602278एन अब जेसी-767495डब्ल्यू),
22 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

क्रिशन लाल (सं. 14602056वाई अब जेसी-767494एन),
17 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

अजय कुमार मेक (सं. 14601035डब्ल्यू अब जेसी-767491ए),
20 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

जगदीश्वर चौधरी (सं. 14600691एल अब जेसी-767490एक्स),
19 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

अशोक कुमार (सं. 14601610एम अब जेसी-767493एल),
10 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

श्याम सिंह (सं. 14602248डब्ल्यू अब जेसी-767497एफ),
13 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

दीना नाथ सिंह यादव (सं. 14602884के अब जेसी-767548के),
01 नवम्बर 2012

सत्रुघन प्रसाद सिंह (सं. 14603491ए अब जेसी-767552एम),
01 नवम्बर 2012

हिंगवे रामचन्द्र विठ्ठल राव (सं. 14603335डब्ल्यू अब जेसी-767549एम), 01 नवम्बर 2012

नल्लन मोहन राव (सं. 14603440एम अब जेसी-767550एफ),
01 नवम्बर 2012

देवेन्द्र सिंह (सं. 14602844एच अब जेसी-767547एफ),
01 नवम्बर 2012

वी मैकल कुमार (सं. 14600901ए अब जेसी-767619ए),
05 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012 *

उमा कांत मिश्रा (सं. 14600875के अब जेसी-767618एक्स),
03 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (एएफ)
के रैंक में

नागेश्वर रेड्डी मड्डी (सं. 14637048वाई अब जेसी-767385एफ),
16 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

सुंकरि सम्मैय (सं. 14638074एम अब जेसी-767365एन),
12 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

दलबीर सिंह (सं. 14638251एफ अब जेसी-767366डब्ल्यू),
18 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

देनेश सिंह (सं. 14639730पी अब जेसी-767367वाई), 13 अक्टूबर
2012/01 अक्टूबर 2012 *

वी बूवलिंगम (सं. 14639722डब्ल्यू अब जेसी-767369के),
01 अक्टूबर 2012

देव प्रशान्न (सं. 14639773के अब जेसी-767368एफ), 01 अक्टूबर
2012

हवलदार से नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

धयगुडे हिरबा किसान (सं. 14614322एम अब जेसी-767364एल),
20 अक्टूबर 2012/25 अगस्त 2012 *

रत्तन सिंह (सं. 14614735एच अब जेसी-766864डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2012

कौशोले किशोर पाण्डेय (सं. 14614646के अब जेसी-767362ए),
26 अक्टूबर 2012/25 अगस्त 2012 *

शिण्डे सुभाश भाऊसाहेब (सं. 14614573एच अब जेसी-
767361एक्स), 01 अक्टूबर 2012/25 अगस्त 2012 *

कामब्ले बी एन (सं. 14614341के अब जेसी-767363एच),
01 अक्टूबर 2012/25 अगस्त 2012 *

देबदास घोश (सं. 14614743एफ अब जेसी-767146डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2012

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (एसए) के रैंक में

सुरेश बाबू ए जी (सं. 14606180डब्ल्यू अब जेसी-767530एन),
01 नवम्बर 2012

भगवान दास (सं. 14606721एन अब जेसी-767078के), 19 जून
2012/01 जून 2012 *

वेंकटेशन बी (सं. 14607690एल अब जेसी-767420वाई),
15 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

सुरकुटे प्रह्लाद नागनाथ (सं. 14607542ए अब जेसी-767423एम),
01 नवम्बर 2012

राजेन्द्र (सं. 14607428एच अब जेसी-767419के), 07 नवम्बर
2012/01 अक्टूबर 2012 *

मधूबनन्द स्वेन (सं. 14607417डब्ल्यू अब जेसी-767418एफ),
17 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

राम कुश सिंह (सं. 14606551पी अब जेसी-767422के),
03 नवम्बर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

राज कुमार (सं. 14607859पी अब जेसी-767425एक्स),
12 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

एम रमेश (सं. 7776738वाई अब जेसी-767520के), 01 नवम्बर
2012

कुम्भार प्रकाश शंकर (सं. 7776781ए अब जेसी-767517के),
01 नवम्बर 2012

स्कारिय मलायिल (सं. 14614456एक्स अब जेसी-767523एक्स),
01 नवम्बर 2012

राज कुमार (सं. 14614702एक्स अब जेसी-767526एल),
01 नवम्बर 2012

जाधव मनोहर धानु (सं. 14614637एच अब जेसी-767484के),
16 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

मानिक कर्मकर (सं. 14614621एक्स अब जेसी-767472पी),
01 अक्टूबर 2012

विनोद कुमार सैनी (सं. 14614147पी अब जेसी-767477एन),
01 अक्टूबर 2012

रामेश्वर सिंह (सं. 7776681पी अब जेसी-767519पी), 01 नवम्बर
2012

रमाकांता मिश्रा (सं. 7776651एक्स अब जेसी-767469पी),
01 अक्टूबर 2012

सुरेश कुमार (सं. 7776610एन अब जेसी-767486पी), 01 अक्टूबर
2012

जगदिश सिंह तनवर (सं. 14614251एच अब जेसी-767487एक्स),
01 अक्टूबर 2012

जुगेन्द्र सिंह (सं. 14614244एम अब जेसी-767485एम),
01 अक्टूबर 2012

दिलिप सिंह (सं. 14614649एक्स अब जेसी-767480एन),
01 अक्टूबर 2012

हीरा सिंह (सं. 14614367वाई अब जेसी-767463एन), 04 अक्टूबर
2012/01 अक्टूबर 2012 *

गणेश चौधरी (सं. 14614238वाई अब जेसी-767515वाई),
01 नवम्बर 2012

सनत कुमार त्रिपाठी (सं. 14614517के अब जेसी-767533एफ),
04 नवम्बर 2012/01 नवम्बर 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (एवीएन)

हरधन मोण्डल (सं. 14636979डब्ल्यू अब जेसी-767364वाई),
18 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (इलेक्ट) के रैंक में
महेश कुमार (सं. 14636462एल अब जेसी-767327एक्स),
29 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में

एल माधप्पन (सं. 14612059ए अब जेसी-767622ए), 01 नवम्बर
2012

सुनिल कुमार (सं. 14611969एफ अब जेसी-767572ए),
01 नवम्बर 2012

गोपाल राम धाका (सं. 14611883एच अब जेसी-767564एफ),
25 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

सुरेश प्रसाद शर्मा (सं. 14611964एच अब जेसी-767569ए),
18 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

वी विजय कुमारन (सं. 14611937वाई अब जेसी-767568एक्स),
18 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

महेन्द्र प्रसाद (सं. 14612194एन अब जेसी-767571एक्स),
01 नवम्बर 2012

एल विश्वजीत सिंघा (सं. 14611672ए अब जेसी-767560एल),
16 अक्टूबर 2012/01 सितम्बर 2012 *

वी बास्करन (सं. 14611690एच अब जेसी-767561एन),
01 नवम्बर 2012/22 सितम्बर 2012 *

कुमारवीर सिंह (सं. 14611946ए अब जेसी-767397डब्ल्यू),
25 सितम्बर 2012/22 सितम्बर 2012 *

मोनी पी (सं. 14611619पी अब जेसी-767406एम), 01 अक्टूबर
2012/01 सितम्बर 2012 *

राजमनी शुक्ला (सं. 14611628डब्ल्यू अब जेसी-767407पी),
25 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012 *

अमर मोण्डल (सं. 14611490एम अब जेसी-767396एन),
14 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012 *

अरविन्द कुमार सिंह (सं. 14611607ए अब जेसी-767404एफ),
01 अक्टूबर 2012/01 सितम्बर 2012 *

सुभ करन कौण्डल (सं. 14611458एक्स अब जेसी-767401एन),
26 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012 *

इसामुद्दिन (सं. 14612036वाई अब जेसी-767413एच),
26 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012 *

कच्चा अश्विन कुमार शामजी (सं. 14611637एक्स अब
जेसी-767410पी), 16 अक्टूबर 2012/01 सितम्बर 2012 *

राम बिलास (सं. 14612293डब्ल्यू अब जेसी-767624एल),
01 नवम्बर 2012

राम प्रकाश सिंह (सं. 14612099एफ अब जेसी-767625एन),
01 नवम्बर 2012

शेरपाल सिंह (सं. 14611919डब्ल्यू अब जेसी-767567पी),
18 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

विजेन्द्र सुहाग (सं. 14611817ए अब जेसी-767562डब्ल्यू),
07 नवम्बर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

रमेश कुमार (सं. 14612204एम अब जेसी-767574एल),
01 नवम्बर 2012

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (ईई) के रैंक में

राम किशोर सिंह (सं. 14639817डब्ल्यू अब जेसी-767376ए),
05 नवम्बर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

सुभास चन्द्र दलाल (सं. 14638957डब्ल्यू अब जेसी-767374पी),
15 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

थंगे सोमनाथ यादव (सं. 14640183एक्स अब जेसी-767380एच),
18 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 *

रवी शंकर दुबे (सं. 14636177एम अब जेसी-767371एफ),
01 अक्टूबर 2012

सुखवीर सिंह (सं. 14639194एक्स अब जेसी-767375एक्स),
01 अक्टूबर 2012

कमलेश के आर पाण्डेय (सं. 14639959एन अब जेसी-
767378एल), 01 अक्टूबर 2012

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

एस के तंवर
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 77, दिनांक 5 फरवरी 2013--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

क्वचित कोर

स्थायी रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार जिलेलामुडी पी डी राव लेलिन (जेसी-239488एफ),
01 मई 2012

रिसालदार ओम प्रकाश (जेसी-239623के), 01 मई 2012

रिसालदार राजेश कुमार (जेसी-239802के), 01 मई 2012 *

रिसालदार विमलन वी आर (जेसी-241534के), 26 जून 2012 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

रिसालदार शनमुगम के (जेसी-241909एक्स), 08 अगस्त 2012 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

रिसालदार हर पाल (जेसी-241030डब्ल्यू), 01 जुलाई 2012

रिसालदार आत्मा राम (जेसी-241956पी), 02 जुलाई 2012 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

रिसालदार राजेश चन्द्र पाण्डे (जेसी-161898एच), 07 अगस्त 2012 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

रिसालदार सतबीर सिंह बेनीवाल (जेसी-242018एफ), 15 अगस्त
2012 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

रिसालदार सामु कुट्टी एम एस (जेसी-242063एन), 01 सितम्बर
2012

रिसालदार नरेश कुमार गुलिया (जेसी-242581एन), 01 सितम्बर
2012

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार/क्लर्क अनवर खान (सं. 1099140एच अब जेसी-
245774वाई), 01 मई 2012

दफादार/क्लर्क देव नारायण गुजर (सं. 1099021एम अब
जेसी-245915एक्स), 01 जून 2012 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

दफादार/एसकेटी हिरागुरुते राम मिश्रा भाई (सं. 1088947एल अब
जेसी-245738एन), 01 जून 2012

दफादार/एसकेटी बाबु राजन पी (सं. 1089763वाई अब
जेसी-245839एफ), 01 जुलाई 2012

दफादार/क्लर्क जय प्रकाश (सं. 1099043एल अब जेसी-
245850ए), 02 जुलाई 2012 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क श्री राजु एस (सं. 15462888डब्ल्यू अब जेसी-
245851एच), 01 जुलाई 2012

दफादार/क्लर्क राज करन सिंह (सं. 1486414एक्स अब
जेसी-245909पी), 01 सितम्बर 2012

दफादार/क्लर्क राधाकृष्ण वी (सं. 1486405डब्ल्यू अब जेसी-
245910के), 01 सितम्बर 2012

दफादार जनेश कुमार (सं. 15462542एम अब जेसी-245965एन),
01 अक्टूबर 2012

दफादार सुख देवा राम जाट (सं. 1099649पी अब जेसी-
245986के), 15 अक्टूबर 2012 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

दफादार संदीप कुमार (सं. 15461542ए अब जेसी-245987एम),
15 अक्टूबर 2012 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार चरन सिंह (सं. 15461747पी अब जेसी-245989एक्स),
01 नवम्बर 2012

दफादार क्रीस्तुदास ई (सं. 15465790एन अब जेसी-
246003डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2012*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार सुरेश बाबु (सं. 15466224ए अब जेसी-246006के),
18 अक्टूबर 2012*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार नरेश कुमार (सं. 15466577ए अब जेसी-246008पी),
01 नवम्बर 2012

दफादार मनोजन वी वी (सं. 15463496पी अब जेसी-246018वाई),
01 नवम्बर 2012

दफादार राजेश सिंह तोमर (सं. 1089837एच अब जेसी-
246026एक्स), 30 अक्टूबर 2012*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार राजा सेकरन एम (सं. 15461633के अब जेसी-246039पी),
07 नवम्बर 2012*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 29 जून 2012 से दी जाती है)

दफादार शैलेन्द्र कुमार (सं. 15461305डब्ल्यू अब जेसी-
246060एक्स), 01 नवम्बर 2012

दफादार सुरेश कुमार पटेल (सं. 15461699ए अब जेसी-
246042पी), 01 नवम्बर 2012

दफादार बलराज सिंह (सं. 15464279एल अब जेसी-246061ए),
05 नवम्बर 2012*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार जगजीत सिंह (सं. 15464570एक्स अब
जेसी-246062एच), 05 नवम्बर 2012*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

सुभद्रत करमाकर
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd February 2013

ARMY BRANCH

No. 65, dated 28th January 2013—The President is pleased to make the following appointments under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Cap (On Probation)

Capt Peeyush Pathak (DS-12377W), 28 Aug 2010

with seniority for pay and promotion from 28.02.2007 (includes addl 06 months ante date for paid job as a Lecturer in Sardar Patel Post Graduate Institute of Dental & Medical Sciences, Lucknow, for the period from 10.06.2009 to 27.08.2010, which will not count for gratuity)

Capt Sandeep Singh (DS-12397K), 27 Oct 2010

with seniority for pay and promotion from 27.04.2007 (includes addl 06 months ante date for paid job as a Lecturer in The Institute of Dental Studies & Technologies, Ghaziabad for the period from 01.06.2009 to 26.10.2010, which will not count for gratuity)

SATISH R IYER
Brig
DDGDS (P)

No. 66, dated 28th January 2013—The following MNS Officers have been granted Permanent Commission with effect from the date(s) mentioned against each name :—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

NS to NR

Maj Saratha S (NS-21137A), 23 Nov 2002, 16 Aug 2012

Maj R Ramalakshmi (NS-21165M), 02 Dec 2002, 16 Aug 2012

Capt Rinki Sachan (NS-21690H), 23 Aug 2007, 16 Aug 2012

Capt Sangeetha K M (NS-21691L), 23 Aug 2007, 16 Aug 2012

H J BHULLAR
Maj Gen
Addl DGMNS

No. 67, dated 29th January 2013—The President is pleased to grant the extension of another tenure to the following MNS Officers from the date(s) mentioned against each name :—

REGULAR ARMY

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Maj Smitha Ramachandran (NS-21139L), 22 Nov 2012, 22 Nov 2016

Maj S Selvarani (NS-21150K), 22 Nov 2012, 22 Nov 2016

Maj P Ranjeeta Devi (NS-21155H), 22 Nov 2012, 22 Nov 2016

Maj Anupama Chaudhary (NS-21160N), 22 Nov 2012, 22 Nov 2016

Maj J Jaya Bharthy (NS-21162Y), 22 Nov 2012, 22 Nov 2016

Capt Rehana Das (NS-21677Y), 22 Aug 2017

Capt Sushma Kumari (NS-21678F), 22 Aug 2017

Capt Puja Gautam (NS-21681F), 22 Aug 2017

Capt Aswathy Chandran (NS-21682K), 22 Aug 2017

Capt Namneet Kaur (NS-21687H), 22 Aug 2017

Capt Sweety Kumari (NS-21692N), 22 Aug 2017

Capt Amegha C V (NS-21697M), 22 Aug 2017

H J BHULLAR
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 68, dated 29th January 2013—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen (& equivalent) to be Lt Gen (& equivalent)

S S Panwar, SM (MR-04125P), 01 Jul 2012, with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 2012

YASH PANDE
Maj Gen
Addl DGAfMS (HR)

No. 69, dated 30th January 2013—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name :—

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

Brig to Maj Gen

Maj Gen Sunita Kapoor (NR-15948P), 01 Sep 2012

Col to Brig

Brig Devika Gurung (NR-16865W), 19 Sep 2012

Brig I D Rai (NR-16482K), 12 Sep 2012

Lt Col (Select) to Col

Col Karuna Bhalla (NR-17185H), 25 Sep 2012

Col Vasantha Kumari G (NR-16945N), 15 Sep 2012

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Lt Col A Kamala (NR-18196F), 03 Sep 2012

Lt Col Thresiamma P V (NR-18176N), 22 Sep 2011

Lt Col Sunita Kapoor (NR-18007M), 17 Aug 2011

Lt Col Shobhana C D (NR-18046L), 17 Aug 2011

Lt Col Parimala Kumari K (NR-18257N), 22 Dec 2011

Lt Col Lata Naidu (NR-18632N), 03 Sep 2012

Lt Col T Cyriac (NR-17965N), 01 Aug 2011

Maj to Lt Col (TS)

Lt Col Sarvjeet Kaur (NR-20524H), 20 Jun 2012

Lt Col Beenam Dwivedi (NR-20526N), 20 Jun 2012

Lt Col Delma Mathew (NR-20527W), 20 Jun 2012

Lt Col Rekha C (NR-20528Y), 20 Jun 2012

Lt Col Saritha T S (NR-20530W), 20 Jun 2012

Lt Col Bincy Bose T (NR-20531Y), 20 Jun 2012

Lt Col Shalini Singh (NR-20536X), 20 Jun 2012

Lt Col Baby Sumangali N (NR-20538H), 20 Jun 2012

Lt Col Jolly Alexander (NR-20539L), 20 Jun 2012

Lt Col Smitha T (NR-20541H), 20 Jun 2012

Lt Col Ajee K L (NR-20542L), 20 Jun 2012

Lt Col Dipta M Nair (NR-20543N), 20 Jun 2012

Lt Col K Rossey Rodrigues (NR-20544W), 20 Jun 2012

Lt Col Rachel P Mathai (NR-20545Y), 20 Jun 2012

Lt Col Manju Lekshmy (NR-20547K), 20 Jun 2012

Lt Col P Shaila (NR-20549P), 20 Jun 2012

Lt Col Mridulla Massey (NR-20551M), 20 Jun 2012

Lt Col Jeena NG (NR-20553X), 20 Jun 2012

Lt Col Josy V (NR-20556L), 20 Jun 2012

Lt Col Sangeeta Sinha (NR-20557N), 20 Jun 2012

Lt Col Anuradha Rawat (NR-20559Y), 20 Jun 2012

Lt Col Neelkamal Joshi (NR-20562Y), 20 Jun 2012

Lt to Capt

Capt Prerana Singh (NR-22377K), 07 Aug 2012

Capt Chandana C (NR-22378M), 07 Aug 2012

Capt Gita Devi (NR-22379P), 07 Aug 2012

Capt Geetanjali Sehgal (NR-22380K), 07 Aug 2012

Capt Bhawna Gaur (NR-22381M), 07 Aug 2012

Capt Sunita Devi (NR-22382P), 07 Aug 2012

Capt Lorena Dorothee Prakash (NR-22383X), 07 Aug 2012

Capt Deepika Sheroun (NR-22384A), 07 Aug 2012

Capt Neelam Chand (NR-22385H), 07 Aug 2012

Capt Priyanka Chaubey (NR-22386L), 07 Aug 2012

Capt Christina (NR-22387N), 07 Aug 2012

Capt Saniya Thakur (NR-22388W), 07 Aug 2012

Capt Archana Sharma (NR-22389Y), 07 Aug 2012

Capt Sumith Mathew (NR-22390N), 07 Aug 2012

Capt Suman Kumari (NR-22391W), 07 Aug 2012

Capt Kanchan Bala Kundal (NR-22392Y), 07 Aug 2012

Capt Pratibha Rani (NR-22393Y), 07 Aug 2012

Capt Neha Katoch (NR-22394K), 07 Aug 2012

Capt Rajani R (NR-22395M), 07 Aug 2012

Capt Sijo K Thomas (NR-22396P), 07 Aug 2012

Capt Sita Devi (NR-22397X), 07 Aug 2012

Capt Jiji V Nair (NR-22398A), 07 Aug 2012

Capt Sheetal (NR-22399H), 07 Aug 2012

Capt Sonika Chhetri (NR-22400M), 07 Aug 2012

Capt Usha Pandey (NR-22401P), 07 Aug 2012

Capt Deepa Bisht (NR-22402X), 07 Aug 2012

Capt Savita Pandey (NR-22403A), 07 Aug 2012

Capt Suman Verma (NR-22404H), 07 Aug 2012

Capt Rini Raj (NR-22405L), 07 Aug 2012
 Capt Amitha Mathew K (NS-22376F), 28 Jun 2012
 Capt Bajjal Rajani (NS-22069K), 23 Nov 2010
 Capt Christina Eleazar (NS-21971Y), 22 Oct 2010
 Capt Kavitha G (NS-21973K), 22 Oct 2010
 Capt Gayatri Devi (NS-21998W), 22 Oct 2010
 Capt Vanitha C (NS-22010K), 22 Oct 2010
 Capt Anubhuti Kapur (NS-22368H), 17 May 2012
 Capt Shyni P P (NS-22369L), 17 May 2012
 Capt K Vimala (NS-22370A), 17 May 2012
 Capt Pinki (NS-22371H), 17 May 2012
 Capt Nimmanapalle Sampoorna (NS-22372L), 17 May 2012
 Capt Tamphamani Devi Ningthoujam (NS-22373N), 17 May 2012
 Capt Sujamol N P (NS-22374W), 17 May 2012
 Capt Shirin Joseph (NS-22375Y), 17 May 2012

H J BHULLAR
 Maj Gen
 Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 70, dated 30th January 2013—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Col to be Col (& equivalent)

R Kapur (MR-06163K), 01 Jul 2011, with notional seniority without effect on pay and pension from 01 May 2011

J Roy (MR-06941K), 23 Jun 2012, with notional seniority without effect on pay and pension from 03 May 2011

Maj to be Lt Col

M K Mishra (MR-07474K), AMC, 13 Jul 2012

Vikram Uppal (MR-07486Y), AMC, 13 Jul 2012

Smita Moudgil (MR-07463X), AMC, 13 Jul 2012

P A Ravi Kumar (MR-08262L), AMC, 23 Jan 2012

Biraj Gogoi (MR-09219W), AMC, 17 Feb 2012

Shiva Kumar R N (MR-08091K), AMC, 28 Apr 2012

P V Bharat (MR-07487F), AMC, 13 Jul 2012

Ngurduhsanga Sailo (MR-08414F), AMC, 21 Jul 2012

Girish A (MR-08235F), AMC, 21 Jul 2012

Sumit Arora (MR-07284X), AMC, 05 Feb 2011

Sonali Vinay Kumar (MR-07472Y), AMC, 13 Jul 2012

Shashi Kumar (MR-07480X), AMC, 13 Jul 2012

A S Brar (MR-07482H), AMC, 13 Jul 2012

Deeraj Nauhwaar (MR-07473F), AMC, 13 Jul 2012

Simple Verma (MR-07402A), AMC, 15 Feb 2012

Saurabh Singh (MR-07484N), AMC, 13 Jul 2012

S P S Shergill (MR-07479H), AMC, 13 Jul 2012

Ashutosh Mishra (MR-08614X), AMC, 21 Jul 2012

Prabin Medhi (MR-08501P), AMC, 21 Jul 2012

Sqn Ldr to be Wg Cdr

M B Suja (MR-08283F) (AF-26057), AMC, 05 Jan 2012

A K Garg (MR-07464A) (AF-26040), AMC, 13 Jul 2012

Deepanjan Dey (MR-07481A) (AF-26046), AMC, 13 Jul 2012

Pragya Sharma (MR-07469W) (AF-26043), AMC, 13 Jul 2012

Vikram Trehan (MR-07466L) (AF-26042), AMC, 13 Jul 2012

Kumar Abhisheka (MR-07465H) (AF-26041), AMC, 13 Jul 2012

Manoj Kumar Goswami (MR-08613P) (AF-26489), AMC, 21 Jul 2012

Capt to be Maj

Vishal Verma (MR-09243M), AMC, 13 May 2012

Shyamji Tiwari (MR-08599N), AMC, 28 Jun 2012

Manish Mishra (MR-09305F), AMC, 25 Apr 2012

Nishant Bhardwaj (MR-08601A), AMC, 30 Jul 2012

Bipin Binod (MR-09236W), AMC, 12 Aug 2012

Lovraj Goyal (MR-09223Y), AMC, 12 Aug 2012

Ritesh Sharma (MR-09286F), AMC, 12 Aug 2012

Dinesh Yadav (MR-09311P), AMC, 12 Aug 2012

Vaibhav Srivastava (MR-09334W), AMC, 30 Jul 2012

Patel Kashyapkumar Chandrakant Bhai (MR-09265L), AMC, 12 Aug 2012

Manu N (MR-09259X), AMC, 12 Aug 2012

Jaideep Locham (MR-09320W), AMC, 12 Aug 2012

RAJVIR SINGH
 Brig
 Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 71, dated 31st January 2013—The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Capt to be Maj

Capt Pankaj Juneja (DS-12376N), 25 Feb 2012
 Capt Peeyush Pathak (DS-12377W), 28 Feb 2012
 Capt Pankaj Kaushik (DS-12387A), 05 Mar 2012
 Capt Ranjeet Panwar (DS-12302Y), 30 Mar 2012
 Capt (Ms) Ankurita Sharma (DS-12305M), 01 Apr 2012

SATISH R IYER
 Brig
 DDGDS (P)

NATIONAL CADET CORPS

No. 72, dated 31st January 2013—The President is pleased to make the following promotion from the date mentioned below against the name of the officer. Relative seniority in the rank will be as indicated against officer's name below :—

NCC WHOLE TIME LADY OFFICERS

(PERMANENT COMMISSION)

Lt to Capt

NCC/GD/PC-12544 Lt Sangeeta P Surendra, 12 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12549 Lt Mahadasu Shubhra, 14 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12551 Lt Ridhima Singh Pokhar, 16 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12552 Lt Yesu Mudgal, 12 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12553 Lt Swati Pandey, 09 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12554 Lt Hricha Sharma, 22 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12555 Lt Priyanka Chauhan, 13 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12556 Lt Anita Jethi, 15 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12557 Lt Chhaya Korwal, 15 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12558 Lt Rizu Rawat, 09 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12559 Lt Aditi Singh, 27 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12561 Lt Alpna, 19 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12563 Lt Akanksha Pandey, 20 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12564 Lt Chhavi Sood, 08 Jun 2012

NCC/GD/PC-12565 Lt Pratibha Tiwari, 14 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12567 Lt N Nianghauching, 18 Jul 2012
 NCC/GD/PC-12568 Lt Ekta Jaiswal, 13 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12569 Lt Shweta Singh, 03 Jul 2012
 NCC/GD/PC-12571 Lt Indu Tiwari, 15 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12572 Lt Arundhati J Patel, 13 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12575 Lt Munni Pankaj, 20 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12577 Lt Avinashi Patwal, 15 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12578 Lt Nishtha Sharma, 23 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12580 Lt Mangaiarkarasi Thirumeni, 17 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12581 Lt Jyoti, 19 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12583 Lt Shashi Mehta, 13 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12584 Lt Aman Preet Kaur, 14 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12585 Lt Meenu Tomar, 18 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12586 Lt Shahnaz Khan, 12 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12587 Lt Mamta Sharma, 03 Jul 2012
 NCC/GD/PC-12589 Lt Alodia Gracia Warjri, 19 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12592 Lt Revathi Prabhakaran, 16 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12593 Lt Pratima Nagar, 08 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12594 Lt Kanak Lata Chaurey, 15 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12598 Lt Pramila Singh, 23 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12599 Lt Shashi Singh, 14 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12600 Lt Viji I V, 19 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12603 Lt Praveen Kumari, 25 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12604 Lt Manjeet Kaur, 23 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12605 Lt Gayatri K Nair, 21 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12606 Lt Gugamalathy A, 09 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12608 Lt Preeti, 16 Jun 2012
 NCC/GD/PC-12609 Lt Poonam Ekka, 20 Jun 2012

H K SETHI
 Col
 Dir (MS)

ARMY BRANCH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

No. 73, dated 1st February 2013—The President is pleased to promote Shri S C Singh, Asst Engr (SG) as

Assistant Executive Engineer Group 'A' in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 29 Apr 2006

S K TANWAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 74, dated 1st February 2013—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Bikram Singh (JC-420102L), 21 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub Maj wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Suraj Singh (JC-419896P), 19 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub Maj wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Suresh Kumar (JC-419734K), 11 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub Maj wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Bajrang Lal Dhaka (JC-421268Y), 04 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satish Singh (JC-421679X), 01 Sep 2012

Nb Sub Babu Lal Jangir (JC-421288M), 04 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Attar Singh (JC-421536X), 01 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 17 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kaluram Thory (JC-421210F), 02 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kulbir Singh Rana (JC-421282L), 05 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Girish Kumar (JC-421321Y), 01 Nov 2012

Nb Sub A Bosco (JC-421371K), 01 Nov 2012

Nb Sub Krishna Mohan Singh (JC-421394L), 01 Nov 2012

Nb Sub Suresh Kumar (JC-421267W), 01 Dec 2012

Nb Sub A Peter (JC-421404K), 01 Dec 2012

Nb Sub Anik Prasad Yadav (JC-421439A), 01 Dec 2012

Nb Sub Lakhvir Singh (JC-421531Y), 01 Dec 2012

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Parvin Kumar (JC-419861Y), 05 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub Maj wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Hem Singh (JC-419923N), 31 Oct 2012

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Viju P (JC-421516K), 17 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rameshwar Lal Gujar (JC-421115P), 13 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 17 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shive Lochan Singh (JC-421230P), 01 Oct 2012

Nb Sub Eldoh Y (JC-421334W), 06 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharmendra Kumar (JC-421364N), 01 Oct 2012

Nb Sub Sanjay Pralhad Khatavkar (JC-421379W), 01 Oct 2012

Nb Sub Kathiravan B (JC-421438X), 13 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shivnayek Singh (JC-421620X), 13 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dhrub Singh (JC-421623L), 05 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Murti (JC-421678P), 18 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Uttam Chand (JC-421779H), 03 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pramod Kumar (JC-421336F), 05 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ravindra Singh (JC-421266N), 01 Nov 2012

Nb Sub Sadanand Prasad (JC-421323K), 08 Nov 2012

Nb Sub Hari Kumar K R (JC-421390P), 01 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pramod Chandra Baishya (JC-421396W), 01 Nov 2012

Nb Sub Jiten Kumar Ghosh (JC-421381N), 06 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lakhbir Singh (JC-421407X), 01 Nov 2012

Nb Sub V Kongappan (JC-421417F), 03 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gajesh Kumar (JC-421418K), 06 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kundan Singh (JC-421430L), 01 Nov 2012

Nb Sub Uma Nath Chaudhari (JC-421456A), 01 Nov 2012

Nb Sub Shaikh Innus Ibrahim (JC-421799W), 01 Nov 2012

Nb Sub Kaialsh Mourya (JC-421487A), 08 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nirmal Singh (JC-421687W), 05 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hans Raj (JC-421766P), 10 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sheo Karan (JC-421805Y), 01 Nov 2012

To be Subs Sub Maj {Clk (SD)}

Sub {Clk (SD)} Krishan Singh (JC-419803P), 01 Nov 2012

To be Subs Sub {Clk (SD)}

Nb Sub {Clk (SD)} Mujawar Salim Mohammad (JC-421049X), 18 Jun 2012*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub (Clk) wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub {Clk (SD)} Hare Krishna Sinha (JC-421196A), 01 Nov 2012

Nb Sub {Clk (SD)} Pratap Singh Mund (JC-421197H), 01 Nov 2012

To be Subs Sub (SKT)

Nb Sub (SKT) Surya Paal Yadav (JC-421900L), 01 Oct 2012

To be Nb Sub

Hav Amresh Tripathi (No. 14916707N now JC-422159Y), 08 Jul 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Sunil Siwani (No. 14916733P now JC-422160N), 22 Jun 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Kewal (No. 14918466X now JC-422182M), 27 Sep 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Sukh Dev Singh (No. 14916089N now JC-422183P), 30 Sep 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar Rana (No. 14914830N now JC-422184X), 30 Sep 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav A Devendran (No. 14918610F now JC-422185A), 04 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Chaudhari Pravin Kumar Devaji Bhai (No. 14916121X now JC-422186H), 09 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Sagar Prasad (No. 14919665X now JC-422187L), 03 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Bhuta Ram (No. 2990836Y now JC-422188N), 16 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Lal Chandra Ojha (No. 14917901P now JC-422189W), 12 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Paramjeet (No. 14922447K now JC-422190L), 16 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Navin Kumar Mali (No. 14918163H now JC-422191N), 16 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Som Nath Singh (No. 14918233W now JC-422192W), 16 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Rajinder Singh Rana (No. 14919995W now JC-422193Y), 19 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Padam Singh (No. 14917879P now JC-422194F), 01 Nov 2012

SUBHABARTA KARMAKAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 75, dated 4th February 2013—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Subs Sub Maj

Sub Golam Murshed (JC-826156W), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Sub Kehar Chand Saini (JC-826159K), 02 May 2012/01 May 2012*

To be Subs Sub

Sub K R Pradhan (JC-826212M), 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Sub K B Rana (JC-826213M), 09 Apr 2012/01 Apr 2012*

Sub B B Pandey (JC-826214P), 01 Apr 2012

Sub K B Ale (JC-826215X), 01 Apr 2012

Sub Gopal Thapa (JC-826216A), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Sub Rakesh Singh (JC-826217H), 01 Apr 2012

Sub Joginder Lal (JC-826218L), 03 Apr 2012/01 Apr 2012*

Sub Uttekar V R (JC-826219N), 01 May 2012

Sub Dilip Kumar Acharya (JC-826220H), 01 May 2012

Sub Naresh Singh (JC-826210Y), 02 Jul 2012/01 Oct 2011*

To be Nb Sub

BHM Vinod Kumar (No. 13755854L now JC-826260K), 26 Dec 2011/01 Nov 2011*

BHM Deep Singh (No. 4183231A now JC-826261M), 07 Jan 2012/01 Jan 2012*

BHM Lakhwinder Singh (No. 3391795L now JC-826262P), 01 Apr 2012

BHM Ravasab Jibagol (No. 2784139Y now JC-826263X), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

BHM Ganesh Limbu (No. 9418838M now JC-826264A), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

BHM Jagdish Kumar Chowdhary (No. 13752222W now JC-826265H), 03 Apr 2012/01 Apr 2012*

BHM B S Chilgar (No. 1580995Y now JC-826266L), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

BHM N Ramanamurthy (No. 1089579N now JC-826267N), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

BHM Devendra Singh (No. 4561571W now JC-826268W), 01 May 2012

BHM V Mayakrishnan (No. 14891440X now JC-826269Y), 02 May 2012/01 May 2012*

BHM Bikram Singh (No. 13753656H now JC-826270N), 01 Jun 2012

BHM Anil Kumar (No. 4069955X now JC-826271W), 01 Jul 2012

BHM Babu Rao Desai (No. 2787454A now JC-826272Y), 01 Jul 2012

*(Date of Seniority)

PREM PARKASH
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 76, dated 4th February 2013—The President is pleased to make the following Appointment/Promotion :—

Hav to be Nb Sub Tech Cmptr

Hemant Kumar Rawat (No. 14636220H now JC-767604X), 01 Nov 2012

Padmanabha Chhatoi (No. 14636277X now JC-767611N), 01 Nov 2012

Mukesh Kumar (No. 14636435F now JC-767617P), 01 Nov 2012

Debasis De (No. 14636342M now JC-767614F), 07 Nov 2012/01 Nov 2012*

Sintu Kumar Das (No. 14636243K now JC-767605A), 01 Nov 2012

Ajay Kumar Routray (No. 14636270N now JC-767610L), 01 Nov 2012

Jacob J (No. 14635156K now JC-767597M), 01 Nov 2012

Jermen Kumar (No. 14635262H now JC-767598P), 01 Nov 2012

Lekshmi Kenta Jena (No. 14634472W now JC-767591L), 01 Nov 2012

T Ramesh (No. 14635284F now JC-767599X), 01 Nov 2012

Kuldeep Singh (No. 14632980N now JC-767590H), 01 Nov 2012

Gour Prasad Goswami (No. 14636261M now JC-767609W), 01 Nov 2012

Siya Ram Singh Kushwaha (No. 14634784M now JC-767595F), 01 Nov 2012

Manoj Mandal (No. 14635589F now JC-767602M), 01 Nov 2012

Prayag Datt Pandey (No. 14634626X now JC-767593W), 01 Nov 2012

Sanjay Kumar Jha (No. 14636338K now JC-767613Y), 02 Nov 2012/ 01 Nov 2012*

Haredhan Sinha (No. 14636253N now JC-767607L), 01 Nov 2012

Jupelli V Koteswera Rao (No. 14636254W now JC-767608N), 01 Nov 2012

Jayaprakash CK (No. 14634806A now JC-767616M), 01 Nov 2012

Manda V Ramana Reddy (No. 14609208X now JC-767501Y), 17 Oct 2012/01 Oct 2012*

Rajesh Kumar Prajapati (No. 14635110F now JC-767596K), 09 Nov 2012/01 Nov 2012*

Anil Kumar (No. 14632971M now JC-767589N), 09 Nov 2012/01 Nov 2012*

Manoj Biswakarma (No. 14636249L now JC-767606H), 12 Nov 2012/01 Nov 2012*

Sajjan Kumar (No. 14635411L now JC-767601K), 06 Nov 2012/01 Nov 2012*

Mukesh Kumar Yadav (No. 14636198H now JC-767603P), 07 Nov 2012/01 Nov 2012*

Pathan Shekir Hamid (No. 14634576X now JC-767594Y), 01 Nov 2012

Siva Kumar AR (No. 14635359N now JC-767600F), 08 Nov 2012/01 Nov 2012*

G Kannayi Ram (No. 14634475K now JC-767592N), 10 Nov 2012/01 Nov 2012*

Pula Narayana (No. 14636319Y now JC-767612W), 09 Nov 2012/01 Nov 2012*

Hav to be Nb Sub Armt (FD)

Sanjeev Kumar (No. 14602994Y now JC-767631F), 03 Nov 2012/01 Nov 2012*

Shiv Shankar Singh (No. 14602947F now JC-767510A), 12 Nov 2012/01 Nov 2012*

Subodh Kumar Singh (No. 14602969A now JC-767511H), 10 Nov 2012/01 Nov 2012*

Hav to be Nb Sub Auto Tech 'B' Veh

Dharmendra Kumar Singh (No. 14599948W now JC-767513N), 02 Nov 2012/01 Nov 2012*

Hav to be Nb Sub Ptr & Dectr

Santosh Kumar Pandey (No. 14613620H now JC-767509L), 03 Nov 2012/01 Nov 2012*

Dinesh (No. 14613618L now JC-767508H), 06 Nov 2012/ 01 Nov 2012*

Hav to be Nb Sub Welder

Shobh Nath Pandey (No. 14609812H now JC-767505P), 01 Nov 2012

Santosh Kumar Singh (No. 14609224P now JC-767502F), 01 Nov 2012

Lal Jee (No. 14610646M now JC-767507A), 01 Nov 2012

Rakesh Kumar Sharma (No. 14610614K now JC-767506X), 15 Nov 2012/01 Nov 2012*

Hav to be Nb Sub Supprt Staff (ER)

Dhamodharan G (No. 14655135P now JC-767457A), 13 Oct 2012/01 Oct 2012*

Hav to be Nb Sub Armt (AFV/AD)

Gajula Nagabhusanam (No. 14609976Y now JC-767391P), 30 Oct 2012/01 Oct 2012*

Shyam Sunder Singh (No. 14610443H now JC-767392X), 20 Oct 2012/01 Oct 2012*

Hav to be Nb Sub Machinist

Jadhav Tanaji Tukaram (No. 14612557M now JC-767285W), 13 Oct 2012/01 Oct 2012*

Ramachandra Swain (No. 14613946Y now JC-767286Y), 15 Oct 2012/01 Oct 2012*

Hav to be Nb Sub Artsn Metallurgy

Anjay Kumar (No. 14619320X now JC-767289M), 29 Oct 2012/01 Oct 2012*

Shiva Awashti (No. 14644398N now JC-767287F), 02 Nov 2012/01 Oct 2012*

Hav to be Nb Sub Tech Radar

Naveen Yadav (No. 14640508A now JC-767393A), 02 Nov 2012/01 Nov 2012*

To be Sub Tech (SA)

Suresh Kumar (JC-764555P), 24 Oct 2012/01 Jul 2012*

Pramod Kumar Singh (JC-765454N), 02 Nov 2012/01 Aug 2012*

Walunj Ashok Namdeo (JC-764976X), 01 Nov 2012/01 Jul 2012*

To be Sub Dvr (MT)

Pramod Kumar Tiwari (JC-764621M), 01 Nov 2012

Raj Pal Hans (JC-764338Y), 25 Oct 2012/01 Oct 2012*

Ajit Singh (JC-764336N), 07 Oct 2012/01 Oct 2012*

Ramesh Kumar (JC-764002Y), 01 Oct 2012/01 Aug 2012*

Baleswar Singh (JC-764988M), 01 Nov 2012

Sahab Yadava (JC-765190X), 01 Nov 2012

Ramesh Chander Tailor (JC-765195W), 01 Nov 2012

Mohan Yadav (JC-765275N), 01 Nov 2012

N Manickam (JC-764985Y), 02 Nov 2012/01 Nov 2012*

Azad Ahmad (JC-765056M), 01 Nov 2012

Mahkar Singh (JC-764986F), 01 Nov 2012

V Muthu Gopal (JC-764952N), 01 Nov 2012

Prasanta Bardoloi (JC-762950K), 01 Oct 2012

Janmed Singh (JC-765058X), 01 Nov 2012

To be Sub Clk (SD)

Om Prakash Pandey (JC-763750A), 01 Nov 2012

Satish Chandra Saini (JC-763624N), 01 Nov 2012

Sawant Vilas Shantaram (JC-763748H), 01 Nov 2012

Ghanshyam Dangee (JC-763625W), 01 Nov 2012

Suresh Babu (JC-763626Y), 01 Nov 2012

Yadav Rakesh Babu Vidyaram (JC-763627F), 01 Nov 2012

Vijay Singh (JC-763622H), 01 Nov 2012

Mishra Dinesh Kumar Ramawlamb (JC-763747A), 01 Nov 2012

Chander Bhan (JC-763630F), 01 Nov 2012

Birolal Singha (JC-763745P), 01 Nov 2012

Ashok Kumar (JC-763631K), 01 Nov 2012

Veer Bahadur Singh (JC-763633P), 01 Nov 2012

Harkaran Singh (JC-763623L), 01 Nov 2012

Babu Kuttan R (JC-763732X), 01 Nov 2012

Bhikam Chand (JC-763166H), 01 Oct 2012

Darshan Lal (JC-763617X), 01 Oct 2012

Pramod Kumar Pasayat (JC-763608W), 01 Oct 2012

Rameshwar Lal Kachchawaha (JC-763255F), 12 Nov 2012/01 Nov 2012*

To be Sub Opr & Dvr (Rec)

Satendra Nath Pandey (JC-766289A), 01 Nov 2012/01 Jul 2012*

Ami Lal (JC-766436X), 01 Nov 2012/01 Jul 2012*

Surendra Singh (JC-765634W), 17 Oct 2012/01 Apr 2012*

Hridaya Narayan Trivedi (JC-766442L), 01 Nov 2012/01 Jul 2012*

Inder Singh (JC-766439L), 01 Nov 2012/01 Jul 2012*

Khastriya Vinod Singh SB (JC-766441H), 01 Nov 2012/01 Jul 2012*

Banshi Lal Katore (JC-766287P), 01 Nov 2012/01 Jul 2012*

Hav to be Nb Sub Auto Tech Engr Eqpt

Hemendra Kumar (No. 14627157X now JC-767146M), 07 Jun 2012/01 Jun 2012*

To be Nb Sub Tech Opto Elect

Ram Awatar Yadav (No. 14602861H now JC-767117X), 11 Jun 2012/01 Jun 2012*

Hav to be Nb Sub Machinist

Umesh Chandra (No. 14603012N now JC-767147P), 15 Jun 2012/01 Jun 2012*

Ghule Hari Bhau Deo Rao (No. 14607621P now JC-767084), 01 Jun 2012

Hav to be Nb Sub Welder

Devid Nandan Sharma (No. 14600576L now JC-767081K), 05 Jun 2012/01 Jun 2012*

Hav to be Nb Sub Support Staff (Uphol)

Nand Lal Rathore (No. 14598879Y now JC-767089W), 13 Jun 2012/01 Jun 2012*

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Amar Singh (No. 14603688W now JC-767576W), 01 Nov 2012

Deshraj Yadav (No. 14600664F now JC-767489H), 23 Oct 2012/01 Oct 2012*

Gurdial Singh (No. 14602357H now JC-767498K), 01 Oct 2012

Iqbal Singh (No. 14602278N now JC-767495W), 22 Oct 2012/01 Oct 2012*

Krishan Lal (No. 14602056Y now JC-767494N), 17 Oct 2012/01 Oct 2012*

Ajay Kumar Mech (No. 14601035W now JC-767491A), 20 Oct 2012/01 Oct 2012*

Jagadishwar Choudhary (No. 14600691L now JC-767490X), 19 Oct 2012/01 Oct 2012*

Ashok Kumar (No. 14601610M now JC-767493L), 10 Oct 2012/01 Oct 2012*

Shyam Singh (No. 14602248W now JC-767497F), 13 Oct 2012/01 Oct 2012*

Deena Nath Singh Yadav (No. 14602884K now JC-767548K), 01 Nov 2012

Satrughan Prasad Singh (No. 14603491A now JC-767552M), 01 Nov 2012

Hingava Ramchandra Vitthal Rao (No. 14603335W now JC-767549M), 01 Nov 2012

Nallana Mohan Rao (No. 14603440M now JC-767550F), 01 Nov 2012

Devendra Singh (No. 14602844H now JC-767547F), 01 Nov 2012

V Michal Kumar (No. 14600901A now JC-767619A), 05 Nov 2012/01 Nov 2012*

Uma Kant Mishra (No. 14600875K now JC-767618X), 03 Nov 2012/01 Nov 2012*

Hav to be Nb Sub Master Tech AVN (AF)

Nageshwara Reddi Maddi (No. 14637048Y now JC-767385F), 18 Oct 2012/01 Oct 2012*

Sunkari Sammaiah (No. 14638074M now JC-767365N), 12 Oct 2012/01 Oct 2012*

Dalbir Singh (No. 14638251F now JC-767366W), 18 Oct 2012/01 Oct 2012*

Denesh Singh (No. 14639730P now JC-767367Y), 13 Oct 2012/01 Oct 2012*

V Boovelingham (No. 14639722W now JC-767369K), 01 Oct 2012

Deo Prashanna (No. 14639773K now JC-767368F), 01 Oct 2012

Hav to be Nb Sub SKT

Dheyguda Hariba Kisan (No. 14614342M now JC-767364L), 20 Oct 2012/25 Aug 2012*

Rattan Singh (No. 14614735H now JC-766864W), 01 Nov 2012

Kaushole Kishore Pandey (No. 14614646K now JC-767362A), 26 Oct 2012/25 Aug 2012*

Shinde Subhash Bhausaheb (No. 14614573H now JC-767361X), 01 Oct 2012/25 Aug 2012*

Kamble BN (No. 14614341K now JC-767363H), 01 Oct 2012/25 Aug 2012*

Debdas Ghosh (No. 14614743F now JC-767146W), 01 Nov 2012

Hav to be Nb Sub Tech (SA)

Suresh Babu AG (No. 14608180W now JC-767530N), 01 Nov 2012

Bhagwan Das (No. 14606721N now JC-767078K), 19 Jun 2012/01 Jun 2012*

Venkatesan B (No. 14607690L now JC-767420Y), 15 Oct 2012/01 Oct 2012*

Surkute Prahlad Nagnath (No. 14607542A now JC-767423M), 01 Nov 2012

Rajender (No. 14607428H now JC-767491K), 07 Nov 2012/01 Oct 2012*

Madhu Bananda Swain (No. 14607417W now JC-767418F), 17 Oct 2012/01 Oct 2012*

Ram Kush Singh (No. 14606551P now JC-767422K), 03 Nov 2012/01 Oct 2012*

Raj Kumar (No. 14607859P now JC-767425), 12 Nov 2012/01 Nov 2012*

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

M Ramesh (No. 7776738Y now JC-767520K), 01 Nov 2012

Kumbhar Prakash Shankar (No. 7776781A now JC-767517K), 01 Nov 2012

Scariah Malayil (No. 14614456X now JC-767523X), 01 Nov 2012

Raj Kumar (No. 14614702, now JC-767526L), 01 Nov 2012

Jadhav Manohar Dnyanu (No. 14614637H now JC-767484K), 16 Oct 2012/01 Oct 2012*

Manik Karmakar (No. 14614621X now JC-767472P), 01 Oct 2012

Vinod Kumar Saini (No. 14614147P now JC-767477N), 01 Oct 2012

Rameswar Singh (No. 7776681P now JC-767519P), 01 Nov 2012

Ramakanta Mishra (No. 7776651X now JC-767469P), 01 Oct 2012

Suresh Kumar (No. 7776610N now JC-767486P), 01 Oct 2012

Jagdish Singh Tanwar (No. 14614251H now JC-767487X), 01 Oct 2012

Jugendra Singh (No. 14614244M now JC-767485M), 01 Oct 2012

Dilip Singh (No. 14614649X now JC-767480N), 01 Oct 2012

Hira Singh (No. 14614367Y now JC-767463N), 04 Oct 2012/01 Oct 2012*

Ganesh Choudhary (No. 14614238Y now JC-767515Y), 01 Nov 2012

Sanat Kumar Tripathi (No. 14614517W now JC-767533F), 04 Nov 2012/01 Nov 2012*

Hav to be Nb Sub Master Tech AVN (Avionics)

Haradhan Mondal (No. 14636979W now JC-767384Y), 18 Oct 2012/01 Oct 2012*

Hav to be Nb Sub Master Tech AVN (Elect)

Mahesh Kumar (No. 14636462L now JC-767627X), 29 Sep 2012/01 Sep 2012

Hav to be Nb Sub DVR (MT)

L Madhappan (No. 14612059A now JC-767622A), 01 Nov 2012

Sunil Kumar (No. 14611969F now JC-767572A), 01 Nov 2012

Gopal Ram Dhaka (No. 14611883H now JC-767564F), 25 Oct 2012/01 Oct 2012*

Suresh Prasad Sharma (No. 14611964H now JC-767569A), 18 Oct 2012/01 Oct 2012*

V Vijaya Kumaran (No. 14611937Y now JC-767568X), 18 Oct 2012/01 Oct 2012*

Mahendra Prasad (No. 14612194N now JC-767571X), 01 Nov 2012

L Bishwajit Singha (No. 14611672A now JC-767560L), 16 Oct 2012/01 Sep 2012*

V Baskaran (No. 14611690H now JC-767561N), 01 Nov 2012/22 Oct 2012*

Kumarvir Singh (No. 14611946A now JC-767397W), 25 Sep 2012/22 Sep 2012*

Mony P (No. 14611619P now JC-767406M), 01 Oct 2012/01 Sep 2012*

Rajmani Shukla (No. 14611628W now JC-767407P), 25 Sep 2012/01 Sep 2012*

Amar Mondal (No. 14611490M now JC-767396N), 14 Sep 2012/01 Sep 2012*

Arvind Kumar Singh (No. 14611607A now JC-767404F), 01 Oct 2012/01 Sep 2012*

Subh Karan Kaundal (No. 14611458X now JC-767401N), 26 Sep 2012/01 Sep 2012*

Isamuddin (No. 14612036Y now JC-767413H), 26 Sep 2012/01 Sep 2012*

Kacha Ashvin Kumar Shamji (No. 14611637X now JC-767410P), 16 Oct 2012/01 Sep 2012*

Ram Bilas (No. 14612293W now JC-767624L), 01 Nov 2012

Ram Prakash Singh (No. 14612099F now JC-76725N), 01 Nov 2012

Sherpal Singh (No. 14611919W now JC-767567P), 18 Oct 2012/01 Oct 2012*

Vijender Suhag (No. 14611817A now JC-767562W), 07 Nov 2012/01 Oct 2012*

Ramesh Kumar (No. 14612204M now JC-767574L), 01 Nov 2012

Hav to be Nb Sub Master Tech AVN (AE)

Ram Kishor Singh (No. 14639817W now JC-767376A), 05 Nov 2012/01 Oct 2012*

Subhas Chandra Dalal (No. 14638957W now JC-767374P), 15 Oct 2012/01 Oct 2012*

Thange Somanath Yadhav (No. 14640183X now JC-767380H), 18 Oct 2012/01 Oct 2012*

Ravi Shankar Dubey (No. 14636177M now JC-767371F), 01 Oct 2012

Sukhvir Singh (No. 14639194X now JC-767375X),
01 Oct 2012

Kamalesh KR Pandey (No. 14639959N now JC-
767378W), 01 Oct 2012

*(Gtd ante dated seniority)

S K TANWAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 77, dated 5th February 2013—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMD CORPS

To be Subs Ris Maj

Ris Jillellamudi PD Rao Lelin (JC-239488F), 01 May 2012

Ris Om Prakash (JC-239623K), 01 May 2012

Ris Rajesh Thakur (JC-239802K), 01 May 2012

Ris Vimalan VR (JC-241534K), 26 Jun 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris Maj wef 01 Jun
2012 without effect on pay and allowances)

Ris Shanmugam K (JC-241909X), 08 Aug 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris Maj wef 01 Jun
2012 without effect on pay and allowances)

Ris Har Pal (JC-241030W), 01 Jul 2012

Ris Atma Ram (JC-241956P), 02 Jul 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris Maj wef 01 Jul
2012 without effect on pay and allowances)

Ris Rajesh Chandra Pandey (JC-161898H), 07 Aug 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris Maj wef 01 Aug
2012 without effect on pay and allowances)

Ris Satbir Singh Beniwal (JC-242018F), 15 Aug 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris Maj wef 01 Aug
2012 without effect on pay and allowances)

Ris Samu Kutty MS (JC-242063N), 01 Sep 2012

Ris Naresh Kumar Gulia (JC-242581N), 01 Sep 2012

To be Nb Ris

Dfr [Clk(SD)] Anwar Khan (No. 1099140H now JC-
245774Y), 01 May 2012

Dfr [Clk(SD)] Dev Narayan Gujar (No. 1099021M now
JC-245815X), 01 Jun 2012*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allowances)

Dfr (SKT) Hiragaruate Ram Mitha Bhai (No. 1088947L
now JC-245738N), 01 Jun 2012

Dfr (SKT) Babu Rajan P (No. 1089763Y now JC-245839F),
01 Jul 2012

Dfr [Clk (SD)] jai Parkash (No. 1099043L now JC-
245850A), 02 Jul 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jul
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr [Clk (SD)] Sree Raju S (No. 15462888W now JC-
245851H), 01 Jul 2012

Dfr [Clk (SD)] Raj Karan Singh (No. 1486414X now JC-
245909P), 01 Sep 2012

Dfr [Clk (SD)] Radhakrishnan V (No. 1486405W now JC-
245910K), 01 Sep 2012

Dfr Janesh Kumar (No. 15462542M now JC-
245965N), 01 Oct 2012

Dfr Sukh Deva Ram Jat (No. 1099649P now JC-
245986K), 15 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Ris wef 25 Sep
2011 without effect on pay and allowances)

Dfr Sandeep Kumar (No. 15461542A now JC-245987M),
15 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Charan Singh (No. 15461747P now JC-245989X),
01 Nov 2012

Dfr Christudas E (No. 15465790N now JC-
246003W), 22 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Suresh Babu (No. 15466224A now JC-246006K),
18 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Naresh Kumar (No. 15466577A now JC-246008P),
01 Nov 2012

Dfr Manojan V.V. (No. 15463496P now JC-246018Y),
01 Nov 2012

Dfr Rajesh Singh Tomar (No. 1089837H now JC-
246026X), 30 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Ris wef 01. Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Raja Sekaran M (No. 15461633K now JC-246039P),
07 Nov 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Ris wef 29 Jun
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Shailendra Kumar (No. 15461305W now JC-246060X),
01 Nov 2012

Dfr Suresh Kumar Patel (No. 15461699A now JC-246042P),
01 Nov 2012

Dfr Balraj Singh (No. 15464279L now JC-246061A),
05 Nov 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Ris wef 17 Sep
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Jagjit Singh (No. 15464570X now JC-246062H),
05 Nov 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

SUBHABARTA KUMAR
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013